

#### Samvardhana Motherson International Limited

(formerly Motherson Sumi Systems Limited)
Head Office: C-14 A & B, Sector 1, Noida – 201301 Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. India
Tel: +91-120-6752100, 6752278, Fax: +91-120-2521866, 2521966, Website: www.motherson.com

November 11, 2022

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor Plot No.C/1, G-Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI – 400051, India BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street
Fort
MUMBAI – 400001, India

Scrip Code : MOTHERSON Scrip Code : 517334

Subject: Notice published in newspaper

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper publication(s) dated November 11, 2022 with respect to unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022.

The above is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly, For Samvardhana Motherson International Limited (formerly Motherson Sumi Systems Limited)

Alok Goel Company Secretary

Regd Office: Unit – 705, C Wing, ONE BKC, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai – 400051, Maharashtra (India) Tel: 022-61354800, Fax: 022-61354801 CIN No.: L34300MH1986PLC284510 Email: investorrelations@motherson.com

# Lenders to Appu Hotels Approve Promoter's Offer

In rare instance under IBC, lenders set to receive amount higher than their claims

Mumbai: Lenders of Appu
Hotels, which operates the fivestar Le Mertiden hotels in
Chennai and Coimbatore
and a resort, have unanimously approved a settlement
offer from the promoter, although the matter is under
dispute at the Supreme Court, said two people aware of
the development of the 502
core offer from promoter Pertriasamy Palani Gounder early this month under Section
12A of the Insolvency and
Bankruptey Code (IBC). Under this section, the promoter

languepal the watter is underdispute at the Supreme Court, sald two people aware of the development in expectation of the state of the suppose and equal to the suppose and th



ple said. on after NCLT's approval, remoter petitioned at the

people-said.
Soon after NCLI's approval, the promoter petitioned at the agonometric petitioned at the agonometric petitioned at the agonometric petitioned at the agonometric petition and a second pe

## Civil Courts Can Take Up Counter Case of Borrower against Lenders: Apex Court

Press Trust of India

New Delibt A civil court is not
burred from entertaining a counter lawsuit of a borrower
against alending bank or financial institution which is pursuing a separate recovery proceedings against him before a debt recovery tribunal DRTy under
a special law, the Supreme CoThe top court was dealing
with the vexed legal question
whether a borrower, facing the
recovery proceedings by a lending bank under the Recovery
of Debts Due to Banks and Fr.
1983 before the DRT, can file a
counter claim case in civil count against the lending financial
institutions instead of filing
it in the DRT itself.

"There is no provision in the



SC BENCH SAID... There is no provision in the RDB Act by which the remedy of

a civil suit by a defendant in a claim by the bank is ousted

otherwise to the DRT," it held.
"We are thus of the view that
there is no provision in the
RDB Act by which the remedy
of a civil suit by a defendant in
a claim by the bank is ousted,
but it is the matter of choice of
that defendant. Such a defendant may file a counterclaim

der the RDB Act be impeded in any manner by filing of a sepa-rate suit if a defendant chooses to do so. A claim petition before the DRT has to proceed in a par-ticular manner and would so proceed. There can be no que-dings by way of a civil procee-dings by way of a civil procee-dings by way of a civil procee-ding by the control of the control of the before the civil court..." It said.

ding instituted by a derendant before the civil court...," it said. It said that the DRT has been set up under the special RDB Act for expeditious disposal of the banks' claim before it and it should not be impeded by fi-

usting standard and the legative counter claim case in civil counter case in counter claim case in civil counter case in civil counter case in civil counter case in case in civil counter case in civil c



#### AXISCADES Technologies Limited

CIN NO: L72200KA1990PLC084435

Regd. Office: Block C, Second Floor, Kirloskar Business Park, Bengaluru - 560024, Karnataka, India Website: www.axiscades.com | Email: info@axiscades.com | Tel: +91 80 4193 9000 | Fax: +91 80 4193 9099

#### Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2022

						(₹ In Lacs)
		Quarter Ende		Half Yea	Year Ended	
Particulars	30 Sept. 2022	30 Jun. 2022	30 Sept. 2021	30 Sept. 2022	30 Sept. 2021	31 Mar. 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income	19,994.34	18,691.08	13,884.14	38,685.42	25,364.36	61,940.02
EBITDA*	3,737.09	2,272.63	1,103.90	6,009.72	2,143.95	6,873.78
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,809.16	1,819.58	472.72	4,628.74	807.52	3,891.56
Share in net profit / (loss) of associate	-	(4.41)	0.66	(4.41)	1.45	(45.82)
Exceptional items, net	-	(4,444.98)	-	(4,444.98)	-	(169.34)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,809.16	(2,629.81)	473.38	179.35	808.97	3,676.40
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,108.20	(3,168.99)	277.41	(1,060.79)	410.60	2,267.91
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,041.74	(2,981.89)	261.60	(940.15)	511.21	2,591.87
Equity Share Capital	1,901.68	1,901.68	1,889.51	1,901.68	1,889.51	1,897.23
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	9		-			31,229.08
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:	5.52	(8.38)	0.70	(2.85)	1.03	5.86
2. Diluted:	5.26	(8.38)	0.69	(2.85)	1.02	5.76

Notes:

In Interns of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the aforesaid Statement of unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 of the AMSCADES Technologies Limited (the "Hodding Company" of the Company") and its sussidiaries (the Hodding Company and its subsidiaries (the Origon) and its associate has been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on November 08, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022 and 2022 and 2022 have been subjected to International SEBI Circular No. CIRCED/CMD1/44/2019 dated March 29, 2019.

3. The previous section of year fitures have been enroused of rearnanced wherever necessary to conform with the current period presentation.

- 3. The previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform with the current period press 4. Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

		Quarter Ende	i	Half Yea	Year Ended	
Particulars	30 Sept. 2022	30 Jun. 2022	30 Sept. 2021	30 Sept. 2022	30 Sept. 2021	31 Mar. 2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total revenue (including other income)	6,813.68	6,136.73	4,300.85	12,950.41	7,985.57	18,402.64
EBITDA*	1,334.12	1,077.97	106.41	2,412.09	243.00	1,522.93
Profit / (Loss) before tax	313.28	(3,719.59)	(388.39)	(3,406.31)	(664.84)	355.40
Profit / (Loss) after tax	272.23	(3,924.93)	(393.62)	(3,652.70)	(683.76)	307.88
Total Comprehensive Profit / (Loss) for the period / year ended	162.74	(3,966.98)	(385.65)	(3,804.24)	(679.15)	346.58

Excluding other income, to align with industry norms.
The above unaudited financial results of the Company are available on the Company's website (www.asscades.com) and also or the websited of SE (www.besindic.com) and NSE (www.nseindic.com), where the shares of the Company are listed.

For AXISCADES Technologies Limited

Arun Krishnamurthi CEO & Managing Director Place : Bangalore Dated : November 09, 2022

#### **NCLT Extends IRP for** Srei Infra till January 5

New Dalhi The Saito

In October 2021 the

October 2021 the

In October 2021 the

October 2021 the

New Dalh Saito Saito

In October 2021 the

New Dalh Saito

In October 2021 the

In October 2021 the

New Dalh Saito

In October 2021 the

In Oct

shown interest in the bu-yout process. "National Company Law Tribunal, Kolkata bench has extended the time of completion of Corporate Insolvency Resolution Process till 5th January 2023 with respect to the ongoing CIRP of the company," Srei said in a BSE filing. .....

# Stakeholders Discuss Way Forward on DAMEPL Payment Issue

New Delhi: A meeting to discuss the modalities on payment of the ba-lance arbitral payment of the halance arbitral award to the Reliance Infrastructure owned Delhi Airport Metro Express Private Limited (DAMEPL) was held on Thrus-day, official sources said. Senior officials of the Centre, Delhi government, DMRC and leading banks took part in the discussion.

ok part in the dis-cussion.

During the mee-ting, all the stake-holders discus-sed the way for-ward on the is-sue, and, the next meeting is expec-ted to take place soon to discuss the future course of action, an offi-cial source said.

of action, an oni-cial source said. The Delhi High Court on October 31 had heard an application from the DAMEPL, which said the

Following
this, the company came
under CIRP
The RBI and
Srei are the litigant par-



NOTCE is heatly given to the public that I he PAULT SHORM have been a resident of B-3. Gold Agartments, eventhing have been been supported as resident of B-3. Gold Agartments, eventhine Nagar Malad West, Mumbal -400064.

Which Rapit Shorms is neither a discharge a resident of B-3. Gold Agartments, eventhine Nagar Malad West, Mumbal -4000 and the state of Gale No. 2. Ground Florc, 22-A Shah Industrial Estate, Of West Dessi Rosk, Andreid (West), Mumbal -400 GSJ. Andreid (West), Mumbal -400 GSJ. Sharma has been missising the Company's name and mischerously spranding false information about the Company's name and mischerously spranding false information about the Company's name and mischerously spranding false information about the I hereby clarified that any persons' dealing with the said Mr. Ranji Sharma has be done any information provided by the Best of name information provided by with the said Mr. Ranji Sharma

It is hettly claimed that ally jestions in a hettly claimed that ally jestions based on any indemation provided by him will be doing so at their own fisk, cost and consequences and the Company will not in any way be responsible or laide to such persons or party in any way whistoever.

And the Parameter of the control of



#### SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

(Formerly Motherson Sumi Systems Limited) CIN - L34300MH1986PLC284510
Rogd. Office: Unit No. 705, C4Ving, OH BRC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India
Tel No. 022-6134800, Fax: 022-61334801, Email: investerrelations@motherson.com, Website: www.motherson.com

Place: Noida Dated: November 10, 2022

#### FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 Half year ended Year ended Half year ended Year ended Three months ended 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2023 18 260 78 17,614.71 14,076.39 35,875.49 30,233.74 63,535.99 Total income from operations from continuing operations 1,278.89 3,428.97 2,392,76 557 94 274 30 178 67 832 24 701 56 1 472 22 Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from continuing operations 274 10 418 50 394 05 178 48 284 34 484 59 Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from discontinued operations 178 48 284 34 484 59 1 424 17 459 56 274 30 178 67 733.86 701 07 Net Profit / (Loss) for the period before tax (afte exceptional items) from continuing operations 145 18 274 10 418 50 393 56 919 8 178 48 284 34 484 59 Net Profit / (Loss) for the period before tax (afte exceptional items) from discontinued operations 178 48 284 34 484 50 1 181 57 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) from continuing and discontinued operations 288 18 181 55 226 55 469 73 673.03 120.00 377 70 333 91 558 24 1 163 86 5 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) 213.91 120.00 246.41 141.22 216.86 387.63 873.85 - Owners 377.70 333.91 558.24 1.163.86 Non-controlling interests Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax and Other Comprehensive Income (after tax)) 672.43 (310.90) 219.38 154.95 383.18 374.33 580.91 1,190.06 451.76 7 Paid Up Equity Share Capital (of INR 1/- each) 451.76 315.79 451.76 315.79 451.76 451.76 451.76 451.76 26,677.40 27,122.66 2,630.66 26,677.40 2,630.66 26,677.40 9 Securities Premium Account 26,669.38 26,669.38 2,622.64 26,669.38 2,622.64 26,669.38 19.878.07 19.829.99 10.842.45 19.878,07 19,736,53 10 Net Worth 30.502.16 30,422,74 5,825,76 30.376.78 5,143.95 5,143.95 14,097.83 13,876.65 12,218.83 14,097.83 12,218.83 5,342.08 5,520.44 5,416.30 12 Debt Equity Ratio 0.62 13 Earnings Per Share (of INR 1/- each) for continuing operations - Basic and Diluted 0.28 0.45 Earnings Per Share (of INR 1/- each) for discontinued operations - Basic and Diluted 0.45 0.70 14 Capital Redemption Reserve Not Applicable being a Listed entity 15 Debenture Redemption Reserve Not Applicable being a Listed entity 16 Debt Service Coverage Ratio 0.70 13.28 17.19 14.98 17 Interest Service Coverage Ratio

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company (www.motherson.com).

By Order of the Board of Directors For Samvardhana Motherson International Limite

V C SEHGAL

Proud to be part of samvardhana motherson

एसपी नेता आजम को मिली सजा कोर्ट ने रखी कायम पीटीआई, बरेली (उत्तर प्रदेश)

रामपुर की जिला और सत्र अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को झटका देते हुए उन्हें एमपी/ एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को चुनीती देने वाली याचिका गुरुवार स्त्री को मुनीत कर ही।

को खारिज कर दी। विशेष अभियोजन अधिकारी राकेश कमार मौर्य ने बताया कि अपर जिला



आजम को नफरती भाषण देने पर 27 अक्टूबर को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत से मिली तीन साल कै कुनार भाग ने बताया कि अनर राज्या एम सन न्यायांश्रीश आलोक हुने ने जेनी अदालत से मिली तो नाल की सन्ता को कला कर दो गई थी। इसके तहत वह सन्ता पक्षों को सुनने के बाद खान की यांचिका व्यक्तार रखा है। अदालत का यह निर्णय काटने के बाद वह साल तक चुनाव भी खारिक करते हुए उन्हें एमगी,एमएलए खान के लिए एक करारा झटका है। वह नहीं लड़ सकते। अदालत से मिली तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत का यह निर्णय

इस साल के सूल में हूए विधानसभा चुनाव में वामपुर सींट से 10वी बर विधायक पूने गए थे। वहीं अब इस सींट पर उपानुवाब का रासता साल हो गया है। चुनावा ने उपानुवाब का कार्कक्रम जावें कर दिया है। बता दें कि विश्वली 27 अक्टूबर को आजम जो की 2019 में नफरत परा गणा देने के मामसे में वीने साल केंद्र की सजा सुनाई थी। यह फैसला होने के फौरन बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता

### डिंपल की मैनपुरी से उम्मीदवारी तय कर अखिलेश ने साधे कई समीकरण

Premsharker Mishra@imesgroup.com
है । ऐसे में मेहरे के चयन में महन उपस्कृत के ही सर्वकार का निवास के हिए स्थाप के निवास के हिए स्थाप के निवास है हुए के स्थाप के निवास है हुए के स्थाप के निवास है हुए के स्थाप के निवास के स्थाप क

ाच्या है। नम्पूर्त संभूतायन बा विश्वात के बात आगे। योनाताक आवावकाओं के टब्येगा के बा बता था। बहुएगा, इसको केवल कई क्यास लगा देवें । मैनपुरी पार्टी की सबसे सुरक्षित सीटों में हैं और संभावनाएं खत्म की जा सकेगी। मुलायम के निधन से पिछले 26 साल से यहां एसपी की बादशाहत कायम यहां सहानुष्कृति मिलेगी, बोटर विखरों नहीं।

जेल से रिहा संजय राउत को अब मोदी-शाह से मिलने की चाहत

मुंबई की आफं रोड सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे 101 दिन बिताने के बाद बाहर आए शिवसेन (जूबेंट) के सर्वेसर संक्ष्य उठाने ने नृत्य को कांत्र सर्वे कर पह कि तीन स्वाच उठाने ने नृत्य को कांत्र सर्वे कर पह कांत्रीन सम्बन्ध को प्रीकृत के स्वाच करने बात में हैं के स्वाच करने बात के दि कृत्य को उठान की दिक करने हुए तियोध पीएमएएए मुदेने निरास्त्रीक अंत्रीय सत्या आ डालांक उठान ने इस के प्रीकृत के अंत्रीय सत्या आ डालांक उठान ने इस के प्राप्त करने हुए तियोध पीएमएएए मुदेने निरास्त्रीक के अंत्रीय सत्या आ डालांक उठान ने इस के पर प्रपान्धकर्म के देवें कराज विज्ञ उनकी उठान की दिवसे कराज उठान के उठान अंत्री कराज कि उनकी उठान की उठान ... सरकार ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा,

सरकार न कुछ अच्छ कसला लिए है। उन्होन कहा, मैं फडणवीस से जेल प्रबंधन का मुद्दा उठाना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से मिलकर अपनी परेशानी बताने की इच्छा जाहिर की।



राउत उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे तो उनका तिलक कर स्वागत किया गया।

पालतू जानवर से जांच एजेंसियों की तुलना महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र के पालतू जानवर की तरह काम कर रही हैं। संजय राउत को जमानत देने

## गजरात बीजेपी चीफ ने माना 'पाटीदार आंदोलन से नुकसान हुआ था

Ponam.Panday@imesgroup.com

मूर्व दिल्ली: बोजी में मान कि गुजरात में शिल्क विधानसम्ब चुनाव में बोजी के बार्चित अंदोलन को उनक में मुक्सन उठाना पड़ा था। एनविंदी से बातजी करते हुए गुजरात बोजी के अध्यक्ष सी आर पटिया ने कहा कि शिक्ष से चुन्हमान में बोजीयत्व को चक्र हैं में मुक्सन हुआ था लेकिन इस बार कटीयर समाज से लेकर सभी समाज बोजीये के साथ पढ़ें हैं। 2017 के विधानसम्ब चुनाव में बोजीय गुजरात में 90 में दिन जीती था। इस बक्त भी बोजीयों के साथ कर से आया जाता में साथ में बोजीयों के साथ कर से आया जाता में साथ सी आर पार्टिल में थी। इस चुनाय में ऐसा क्या बदला है, बोजीयों के साथ कर राहि है। इस बार गुजरात में अपना में एसा क्या बदला है, इस बार गुजरात में अपना स्वाच भी साथ आंदोलन चार तहा कि जिस तहा सेवे सारकार में कमा फिला, पूरे देश में उन पर विख्यास मिला में उस बाता (शिक्स चुनाय में) आंदोलन चार तहा था। आंदोलन की वजर से मी बीजा नुकस्मत हुआ था। इस बार गुजरात में आम आदार्थी पार्टी में चुनाय तहर ही है, जाबिक बार कुमा को कोशिया ही होतीन में चेवा हो तहा कहा कि पहले थे भी मोका मार्टी होता में कीशिया ही होतीन के चित्र होता चुनाय में मी विज्ञ हो भी मोका मार्टी होता होता होता चुनाय करता है। क्या मुक्सला हिक्सीयों होता होता के चीजा होता साथ कि पहले के मार्टी के मीका मार्टी होता हम करता में कारी पहला कारी करता है। क्या मुक्सला होती हम करता है अपना को मीता होता है। भी मीका मार्टी होता हम करता चुनाय करता करता के मार्टी कार्य होता है जब वाटे परे करने की विश्वसनीयता वाटा करने वाले में हो।

## राहल के संग NCP नें की कदमताल

सिवादारी (Data) प्रशास के स्वित्त के स्वाद के

मुताबिक, दोनों ही नेताओं की तबीयत ठीक न होने के चलते इसमें शामिल होने पर शंका जताई जा रही थी। महाराष्ट्र में जिस तरह से राहुल गांधी हान पर पाया जाए जा रहा था। महाराष्ट्र में गांव राहर से रहुए गांव की यात्रा में घटक दल के नेताओं ने भाग लिया, उससे एक बात साफ हैं कि राज्य में महाविकास आचाड़ी एक हैं। जब से वहां उद्धार सरकार हटी तो लगातार कहा गया कि वहां टाकरे शिवसेना अलग-थलग पड़ जाएगी। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, शिवसैनिक इसे पुरा सपोर्ट दे रहे हैं।

# motherson 1

#### SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

(Formerly Motherson Sumi Systems Limited) CIN - 1.3430MH1986PLC284510
Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India
Tai No. 022-6334800, Fas: 022-6334801, Email: investerelations@motherson.com, Website: www.motherson.com

#### FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022

Consolidated INR in Crores									Standa			lalone			
Thre	ee months er	nded	Half yea	ar ended	Year ended			Thr	Three months ended			Half year ended			
30.09.2022 (Unaudited)		30.09.2021 (Unaudited)		30.09.2021 (Unaudited)			Particulars	30.09.2022 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)			30.09.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)		
18,260.78	17,614.71	14,076.39	35,875.49	30,233,74	63,535,99	1	Total income from operations from continuing operations	1,810.74	1,618.23	1,278.89	3,428,97	2,392,76	5,344.75		
557.94	274.30	178,67	832,24	701.56	1,472,22	2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from continuing operations	273,32	145,18	274.10	418,50	394.05	967.90		
-	-	178.48	-	284.34	484,59		Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items) from discontinued operations	-	-	178.48	-	284.34	484.59		
459.56	274,30	178,67	733,86	701,07	1,424,17	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) from continuing operations	273,32	145,18	274.10	418,50	393,56	919.85		
-	-	178.48	-	284.34	484.59		Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) from discontinued operations	-	-	178.48	-	284.34	484.59		
288.18	181.55	226.55	469.73	673.03	1,181.57	4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items) from continuing and discontinued operations	213.91	120.00	377.70	333.91	558.24	1,163.86		
						5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)								
246.41	141.22	216.86	387.63	506.49	873.85		- Owners	213.91	120.00	377.70	333.91	558.24	1,163.86		
41.77	40.33	9.69	82.10	166.54	307.72		- Non-controlling interests	_	_	_	-	_	_		
						6	Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}								
(310.90)	672.43	(0.62)	361.57	564.42	908.81		- Owners	219.38	154.95	383.18	374.33	580.91	1,190.06		
41.01	40.16	(32.86)	81.17	216.86	492.39		- Non-controlling interests	_	-	-	-	_	-		
451.76	451.76	315.79	451.76	315.79	451.76	7	Paid Up Equity Share Capital (of INR 1/- each)	451.76	451.76	315.79	451.76	315.79	451.76		
20,247.79	20,753.27	12,342.58	20,247.79	12,342.58	20,136.47	8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	30,559.91	30,634.17	5,704.59	30,559.91	5,704.59	30,479.27		
26,677.40	27,122.66	2,630.66	26,677.40	2,630.66	26,677.40	9	Securities Premium Account	26,669.38	26,669,38	2,622,64	26,669.38	2,622.64	26,669,38		
19,878.07	19,829.99	10,842.45	19,878.07	10,842.45	19,736.53	10	Net Worth	30,422.74	30,502.16	5,825.76	30,422.74	5,825.76	30,376.78		
14,097.83	13,876.65	12,218.83	14,097.83	12,218.83	14,129,72	11	Paid Up Debt Capital/ Outstanding Debt	5,520,44	5,342,08	5,143,95	5,520,44	5,143.95	5,416,30		
0.68	0.65	1.03	0.68	1.03	0.69	12	Debt Equity Ratio	0.18	0.17	0.85	0.18	0.85	0.18		
0.36	0.21	0.17	0.57	0.62	0.97	13	Earnings Per Share (of INR 1/- each) for continuing operations - Basic and Diluted	0.31	0.18	0.53	0.49	0.73	1.53		
-	-	0.28	-	0.45	0.70		Earnings Per Share (of INR 1/- each) for discontinued operations - Basic and Diluted	-	-	0.28	-	0.45	0.70		
_	_	_	_	_	_	14	Capital Redemption Reserve	_	_	_	_	_	_		
	Not A	pplicable bei	ng a Listed e	entity		15	Debenture Redemption Reserve		Not A	pplicable bei	ng a Listed e	ntity			
0.32	0.73	0.62	0.57	1.37	3.17	16	Debt Service Coverage Ratio	0.05	0.11	0.09	0.09	0.20	0.70		
14.03	12.43	15,19	13.28	17.19	14.98	17	Interest Service Coverage Ratio	4.35	3,93	4.82	4.14	6.09	5.01		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company (www.motherson.com).

Place: Noida Dated: November 10, 2022

By Order of the Board of Directors
For Samvardhana Motherson International Limited
(Formerly Motherson Sumi Systems Limited)

V C SEHGAL

#### Proud to be part of samvardhana motherson

#### 'धर्मांतरित दलितों को SC दर्जा नहीं दे सकते'

आईएप्पएस, मई दिल्ली : केट सरकार ने सुप्रीम कोट से कहा है कि ईवाई और इस्लम धर्म अरनाने वाले दिलते को असुप्रीचत जाति का दर्जों देने की मांग याली याधिका की असुप्रीत नहीं देंग जानी चाहिए, क्लोकि से कुआहत में चीहित नहीं से सुप्रीम कोट ने 30 आसत को केट्र से इस मामले में पारण याधिकाओं पर करता साल करते को रुख सामल में क्ला को कहा था। केट्र ने लिखा रुख साल करने को कहा था। केट्र ने लिखा

जवाब में कहा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का संवैधानिक अधिकार 1950 के आदेश के अनुसार केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को दिया गया है।

#### पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल 🕸 ई-निविदा सूचना निविदा कमांक: EL/TRD/58/2022-23/09

दिनांक: 09:11:2022 कार्य का नाम हिरानीकः 09.11.2022 बार्गार्थ क्या नामाः. Replacement of battery sets at various 1785, SP and SSP having completed their could like suggether arts (7.17.63.2004) कर्या है प्राथमित कर (7.17.63.2004) कर्या है प्राथमित कर (7.17.63.2004) कर्या है प्राथमित कर होने की हिर्दाक्ष कर्यो सर्पेष्ठ कर कर किया है प्राथमित कर होने की हिर्दाक्ष कर्या सर्पेष्ठ कर के स्वीवन की स्वीवन कर होने की हिर्दाक्ष कर कर के स्वीवन की स्वीवन कर होने की हिर्दाक्ष कर कर कर के स्वीवन की स्वीवन कर होने कर होने की स्वीवन कर होने हों है स्वीवन कर होने हों है स्वीवन कर होने हों है स्वीवन कर है स्वीवन कर हों है स्वीवन कर हों है स्वीवन कर हों है स्वीवन कर है स्वीवन कर हों है स्वीवन कर है स्वीवन है स्वीवन कर है स्वीवन कर है से स

(१/1/268 प्. ₹., रतलाम इड को : 🚰 facebook.com/WesternRly

#### 💿 पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल 🥵

② Thick face varieties 6 %

4-field vagen

fielden aveillen. ELITEO/68/2022/2010

fielden aveillen avei

SICOM सिकॉम लिमिटेड पंजीवृत कार्यालयः सॉलिटेयर कॉरपोर पार्क, बि चकला, अक्षेत्र (पूर्व) मुक्द - 400 छ दूरभाष नः- (022) 66572 700 एमवीएल लिमिटेड की आस्ति की बिक्री के

एमखीएल लिमिस्टेड की आस्ति की किक्की के लिए प्रति एक की अभिज्यक्ति (है जीआई)।
पिस्ती निर्मार हिम्मे की अभिज्यक्ति (है जीआई)।
पिस्ती निर्मार है, एक सार्वकृति हिम्मे अपने प्रता मानिक्या कर तस्तीन और निर्मा पृत्यास्,
प्रिरणाम में मिक्स सेक्टर 15 (1), निकट 32 जी महत रहने में माण सुगर किल्ड आ के
2905 302 जो पूर्व एक प्रदिन्म में "जात है जीते हैं, जो है पत्नी है जो कुछ भी है वहीं है
जात आक्रय मिक्स आप्ता "पर दिस्त की निर्मा के पत्नी है तहीं है, जो कुछ भी है वहीं है
जात आक्रय मिक्स आप्ता "पर दिस्त की निर्मा के जात सर्मकों के विशेष सके अपने के विशेष की अधिक की एक विश्वक्ति (हों जीते) आधींक किल हों
जीते की पिस्ता के प्रता के प्रता के स्वत हों के प्रता है
आदि का विश्वक्त प्रता के स्वत हों के प्रता के अपने अधिक स्वत हों के प्रता है
आदि का विश्वक्त प्रता है कि की है निर्मा के स्वत हों के अपने की अधिक स्वत हों के प्रता है
आति का विश्वक्त स्वत स्वत के स्वत हों के अपने के अध्यान अधिकार होंगा के पत्त सके की स्वत स्वत सके सके स्वत हों होंगे के स्वत हों के स्वत होंगे के स्वत होंगे के स्वत होंगे के स्वत होंगे हैं स्वत होंगे के स्वत होंगे हैं स्वत होंगे है स्वत होंगे हैं स्वत स्वत होंगे हैं स्वत होंगे हैं स्वत होंगे है स्वत होंगे हैं स्वत है स्वत होंगे हैं स्वत होंगे

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण उच्च प्रमावनिक चयन, सेक्टर-ठ, नीएवा, नीवमुख नगर (७०४०) Websits: www.noidaauthorityoniins.com ई-निविदा आमंत्रण सूचना

UPCL लखनक में पंजीवृत्त कारी / ठेकरात से गिमा जोव संख्याओं हेतु ई-गिर्स आमंत्रित की जाती है, जिल्हें गिमानुसार निविद्यों तक अवसंक किया जा सकता है एवं प्राई-हैनियिदाओं को जनते मामूब रात्रीयों में हिम्मियों तक अवसंक किया जा सकता है एवं प्राई-हैनियिदाओं को जनते मामूब रात्रीयों में हिम्मियों तक खेला क्यांना गिरिया त्राक्ष समस्त विद्याप व वर्त गैएका प्रतिकरण को वेस्साईट अक्षात्राक्षात्राक्षात्र है। एवं UPCL को वेस्साईट http://letenday.nici.ni पर उपलब्ध है। किसी परिवार्ग संगोधन व आरिशिया गूरमाओं के लिये जनत वेस्साईट देखते रहें।

24 / श्रावण(वान्ता) मार्/ (विटीट) (श्रावण क्षेत्र प्रस्ताहर प्रस्

रण 14891 ताख जिस हैं विश्वास किया निर्माण कार्या निर्माण कार्या है। प्राप्त हैं जिस हैं दिनांक 24.11.2022 को साथ 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकत है। प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्यांतिकिकेशन दिनांक 25.11.2022 को प्रात 1200 बजे खोती जाएंगी। (क)

)
13/0000(जल)-1/2022-23, जलागृति अनुस्वन्ध (सांते मण्टिर, डीण्टम्फर्टी)
टॉल स्वाता के निकट विच्या गीमाला एवं नन्दीमाला का मिर्माण कारी भणिता
टॉल स्वाता के निकट विच्या गीमाला एवं नन्दीमाला का मिर्माण कारी भणिता
टंड अ/फिल्मिएक/एठअफे/ प्रसार्म्(जल-मालाफी/)/2022-23, एवसमेत्री यर
टंड अ/फिल्मिएक/एठअफे/ स्वाता क्यांत्री की स्वतात व संसातना का कार्य
(मण्डिक-प्रेटर मीएका एवसमेत्री की एलीना आईस्प्रीव्याप्टरफ- विकटन-एडएड-स्वाता एवसमेत्री की एलीना आईस्प्रीव्याप्टरफ- विकटन-एडस्वातान एड-स्वातान कार्या की एड-स्वातान पहिच्या मालाक्ष्मी कार्या कार्या की एड-स्वातान कार्या कार

जिन्हें हिनांक 17.11.2022 को सार्थ 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निदिदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 18.11.2022 को प्राप्त 11:00 बजे खोती जाएंगे। उप महाप्रबंधक (जल नीएका

सक्टर - 5 स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नोएडा



	(र करोड़ में ईपीएस के अविरिक्त)													
				स्टैंडः	अलोन			समेकित						
क्र	विवरण	स	माप्त तिमा	ही	समाप्त	समाप्त छमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वर्ष		
सं.	144541								30.06.2022				31.03.2022	
_		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से आय	631.67	578.33	743.97	1,210.00	1076.47	2,575.16	659.08	605.04	765.56	1,264.12	1120.61	2,661.83	
2	अन्य आय	31.23	31.40	22.97	62.63	49.45	86.00	25.22	31.67	23.29	56.89	45.50	83.45	
3	कुल आय	662.90	609.73	766.94	1,272.63	1125.92	2,661.16	684.30	636.71	788.85	1,321.01	1166.11	2,745.28	
4	कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)*	172.93	173.58	218.32	346.51	311.43	674.56	188.28	195.12	234.40	383.40	339.94	735.10	
5	कर पश्चात निवल लाम / (हानि)*	131.39	129.26	163.13	260.65	233.60	497.10	140.20	144.70	174.49	284.90	252.35	538.58	
6	कुल समग्र आय [लाम / (हानि)	135.68	129.45	161.25	265.13	232.98	497.86	144.36	144.79	172.50	289.15	251.72	539.41	
	(कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात शामिल)।													
7	इक्विटी शेयर पूंजी	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	240.30	
8	अन्य इक्विटी (गैर-नियंत्रित ब्याज को छोड़कर)						2158.96						2248.34	
9	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)**													
10	मूल (र)	5.47	5.38	6.79	10.85	9.72	20.69	5.51	5.72	7.03	11.23	10.03	21.49	
11	डाइल्यूटिड (₹)	5.47	5.38	6.79	10.85	9.72	20.69	5.51	5.72	7.03	11.23	10.03	21.49	
	अवधि के दौरान कोई विशिष्ट मदें नहीं थी। 30 सितंबर, 2022 और 30 जून, 2022 तथा 30 सितं	बर, 2021 क	ो समाप्त ति	माही और अ	) सितंबर 20	122 व 30 नि	नतंबर 2021	को समाप्त ।	उमाही के लि	ये ईपीएस व	र्षिककृत नर्ह	ों है।		

उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 10 नवम्बर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त सेवी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सबेजों के मास दायर तिमाढ़ी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप रेस्ट स्टॉक एक्सबेजों को वेबसाइट www.seindiac.com और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rites.com पर उपत्स्वा है।

- 4. रेल मंत्रालय में अपने पत्र दिनांक 18.10.2021 के राइत इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलप्सेंट कापीरशन (आईआएएसडीसी) को बत्र करने का स्टेशाकि निर्मय कर दिला है, जिससे करने का निर्मा है। रेसक करने का गियाने दिला है। बंद करने की गतिविधियां चार रही है और आईआएसडीसी के बाई अध्येक्तएएसडीसी की संपत्ति और चैनचारियां आएएसडीए को इस्तानियत करने का निर्माव किया है।
- होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹4.50 प्रति शेयर (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर) के दूसरे अंतरिम लामांश की प्रस्तावना की गई है।

पूर्वावधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हुआ, वहां पुन: समूहन / पुन:वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से अन्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिका अन्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिका अजाईएन : 0761045

Future Ready: Not just more of the same, but much more of the New!

नुपया लक्ष असू द्या की श्रीमती आरती बटटा, मुंबई . हिवाशी (यानंतर **माझे अशील** म्हणून संदर्भित) मालमत्ता परिशिष्टात विशेष विवरणित अशी फ्लॅट क्र ए४०१, कृष्णा रीजेंसी, दत्त मंदिर रोड, वाकोला सांताक्रूझ पर्व. मंबई ४०० ०५५ (यापश्चात **सदर मालमत्ता** म्हणन पती स्व. श्री दृशात दमान डी बट्टा यांचेकडून वारसाहकाने भिळवली आहे आणि इतर कायदेशीर वारसदार हे सदर मालमत्ता मधील त्यांचे शेअर माझ्या अशीलांसाठी त्यांचे नावे सोडण्यास इच्छुक आणि तयार आहेत.

वरील परिस्थिती पाहता, माझ्या अशीलांच्या सूचनेप्रमाणे मी याद्वारे सर्वसाधारण जनतेस जाहीरपणे सूचना देत आहे की सर्व किंवा कोणीही व्यक्ती ज्यांचे सदर मालमत्ते मधील कोणतेही हक, नामाधिकार, स्वारस्य जे इतर कायदेशीर गरसदारांच्या हितसंबंधाच्या पूर्वन्यायिक असेल किंवा अणे व्यक्ती ज्यांनी कोणताही वाद, दावा, खटला न्यायालयीन कार्यवाही दाखल केली आहे किंवा सदर लमत्तेतील विषयवस्तु संदर्भात कोणतीही डिक्री, अवार्ड किंवा इतर कोणतेही संबंधित आदेश मिळविले असतील करण्यासाठी वरील विवरणित प्रमाणे अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया दाखल करण्यास इच्छुक असतील तर त्या सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी सद्रहू सूचनेच्या प्रसिद्दीच्या तारखे पासून **चौदा दिवसांच्या** आत . समर्थनीय कागदोपत्री पुराव्यांसह आपले आक्षेप आणि दावे लेखी स्वरूपात खालील स्वाक्षरीदार यांना कळवावे अन्यथा माझे अशील असा कोणताही विपरीत दावा किंवा आक्षेप नसल्याचे मानतील किंवा जरी ते असतील. तर ते यानंतर माफ केले असल्याचे मानतील आणि अशा स्थितीत मारो अशील संबंधित प्रश्नांतरे त्राविल्याप्रमणे रिलीय व्यवहार पूर्ण करण्याची पुढील कार्यवाही करतील. कृपया लक्षात असू द्या.

मालमत्तेचे परिशिष्ट मंबई उपनगरचे उप जिल्हा आणि अंधेरी जिल्हा करण अंतर्गत फ्लॅट क्र. ए४०१, कृष्णा रीजेंसी, दत्त मंदिर रोड. वाकोला सांताक्रझ पूर्व, मुंबई ४०० ०५५, या रहिवाशी फ्लॅट चे सर्व भाग आणि हिस्से

स्वाक्षरी/ मामी रंजनीकर ॲडव्होकेट २०२, शिरिन टॉवर, श्रद्धानंद रोड, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई

मोबाइल : ९९६७०३०३१३ ईमेल : skranjnikar@gmail.com दिनांक : ११.११.२०२२

#### जाहीर सूचना

याद्वारे सूचना दिली जाते की आमचे अशील श्री. कपिल बागला आणि सौ. हेमलता बागला ( विक्रेते) यांच्यासोबत खरेदीसाठी वाटाघाटी करत आहेत. याखालील शेड्यलमध्ये अधिक विशेषतः वर्णन केलेल्या परिसराचे आणि आम्हाला सांगितलेल्या जागेच्या विक्रेत्यांच्या शीर्षकाची चौकशी करण्याची सूचना देण्यात

या जागेबाबत कोणताही दावा, वाटा, हक, शीर्षक, स्वारस्य किंवा मागणी असलेल्या सर्व व्यक्ती आणि/किंवा त्याचा कोणताही भाग किंवा कोणत्याही प्रकारे विक्री. हस्तांतरण, असाइनमेंट, गहाण या मार्गाने उक्त परिसराशी जोडल्याचा दावा, ताबा, धारणाधिकार, भाडेपट्टा, ट्रस्ट, भेट, शल्क, वारसा, देखभाल किंवा अन्यथा जे काही आहे ते येथे नमूद केलेल्या पत्त्यावर आमच्या कार्यालयास वैध/प्रभावी कागदपत्रांच्या प्रमाणित छायाप्रतींद्वारे समर्थीत लिखित स्वरूपात याच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून १४ (चौदा) दिवसात कळविणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास. अशा व्यक्ती/चा दावा माफ केला गेला आणि/किंवा सोडला गेला असे मानले जाईल

#### वरील वेळापत्रक संदर्भित

(उक्त जागेचे वर्णन) ५ सर्व पूर्ण पेड-अप शेअर्स. टेरा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड **(''सोसायटी'')** च्या विशिष्ट क्रमांक ९६ ते १०० (दोन्ही समावेशी) असणारे प्रत्येकी ५० /- (पन्नास रुपये) शेअर प्रमाणपत्र क्रमांक ००२१ अंतर्गत जारी केलेले निवासी फ्लॅट क्रमांक ११०२, टॉवर १ (टेरा) या नावाने ओळखल्या जाणार्या इमारतीच्या ११व्या मजल्यावर ९७०.५० चौ.फट (चटईक्षेत्र), जिमनीच्या भूखंडावर उभ्या असलेल्या सोसायटीच्या तळघरात ६१ आणि ९७ कमांकाच्या २ (टोन) कार पार्किंगच्या जागा. भायखळा विभागातील सीएस क्रमांक १९६० (पीटी) (फ्री होल्ड), जेकब सर्कल जवळ, ओल्ड सिम्प्लेक्स मिल्स कंपाऊंड के के मार्ग महालक्ष्मी (पू), मुंबई ४०००११ . येथे आहे, दिनांक:- ११ नोव्हेंबर २०२२ सही/

> कुईकर असोसिएट्स, वकील,

कार्यालय क्रमांक २८/२९, तिसरा मजला, इस्लाम बिल्डिंग, ४६ , वीर नरिमन रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ दूरध्वनी क्रमांक २२८७७१०७/०९

## जाहीर सूचना श्री. कृष्णत कोंडिबा निकम हे गुलझार को-

ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. चे संयुक्त सभासद ज्यांचा पत्ता ३६/४० दादोजी कोंडदेव मार्ग, भायखळा(पू), मुंबई ४०० ०२७ येथे आणि सोसायटीच्या इमारतीमधील २ऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र. २२ चे धारक असून त्यांचे कोणतेही नामनिर्देशन न करता ३१.०७.२०२१ रोजी निधन झाले.

सोसायटी याद्वारे सोसायटीच्या भांडवल। मिळकतीमधील मयत सभासदाचे सदर शेअर्स आणि हितसंबंधाचे हस्तांतर होण्यास वारस किंवा वारसदार किंवा इतर दावेदार/ आक्षेपदार किंवा अन्य दावेदारी/आक्षेप घेणारे यांच्याकडून दावे किंवा आक्षेप असल्यास ते सदर सूचनेच्या प्रसिध्दीपासून १५ दिवसात सोसायटीच्या भांडवल/ मिळकतीमधील मयत सभासदाच्या शेअर्स व हितसंबंधाच्या हस्तांतरणासाठी त्याच्या/ तिच्या/त्यांच्या दाव्या/ आक्षेपांच्या पुष्ठचर्थ अशी कागदपत्रे आणि अन्य पुराव्यांच्या प्रतींसह मागवित आहे. वर दिलेल्या मुदतीत जर दावे/ आक्षेप प्राप्त झाले नाहीत, तर सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीमधील दिलेल्या मार्गाने सोसायटीच्या भांडवल/मिळकतीमधील मयत सभासदाचे शेअर्स व हितसंबंधाचे हस्तांतर करण्यास सोसायटी मोकळी असेल, जर, सोसायटीच्या मिळकतीमधील सभासदाच्या शेअर्स आणि हितसंबंधाच्या हस्तांतरणास काही दावे/आक्षेप सोसायटीने प्राप्त केले तर, सोसायटीच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार त्यावर सोसायटी कार्यवाही करेल. सोसायटीच्या नोंदणीकृत उपविधीची प्रत दावेदार/ आक्षेपकांद्वारे निरीक्षणासाठी सोसायटीचे कार्यालय/ सोसायटीचे सन्मा. सचिव यांचेकडे स ११ आणि सायं ५ च्या मध्ये सदर सूचना प्रसिध्दीच्या तारखेपासून तिच्या कालावधी समाप्तीच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध आहे.

गुलझार को- ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि. च्या वतीने आणि करिता सन्मा. सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: ११.११.२०२२

#### आवास फायनान्शियर्स लिमिटेड ∆oyas

(पूर्वी एयु हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड अशी ज्ञात) (सीआयएन : एल६५९२२आरजे२०११पीएलसीओ३४२९७)

#### सिक्युरिटायझेन ॲक्ट २००२ च्या कलम १३(२) अन्वये मागणी सूचना

कर्ज खाते एनपीए बनल्यामुळे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी (प्र.अ.) सिक्युरिटायझेशन ॲण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनास्थियल ॲसेटस् ॲण्ड एन्फोसेमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट ००२ च्या कलम १३(२) अन्वये कोष्टकात दिल्यानुसार कर्जदारांना ६० दिवसांची मागणी सूचना जारी केलेली आहे. सदर सूचनेनुसार जर कर्जदारांनी ६० दिवसात संपूर्ण रक्कम जम केली नाही तर खाली दिल्यानुसार तारणांचा लिलाव करून रक्कम वसूल करण्यात येईल. कर्जदार/हमीदार यांना पाठविलेल्या मागणी सूचनेची बजावणी झाली नाही, मागणी सूचनेची प्रत खाली दित्यानुसार तारण मत्तेवर सुष्टा चिटकविण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही कर्जदार यांना ६० दिवसात पुढील व्याज आणि वसुली खर्चासह संपूर्ण कर्ज सकम जमा करण्यासार कळविण्यात येत आहे, अन्यथा प्रा. अ. सदरह् अधिनियमाच्या कलम १३(४) आणि १४ च्या तरतुरीन्वये खाली दिल्यानुसार तारण मत्तेचा कब्जा घेण्यास मुक्त राहतील. कलम १३(२) अन्वये मागणी सूचनेची तारीख

	आणि रक्कम	
श्री. सुदाम वामन सोनावले, सौ. धनश्री सोनावले ,	०८ नोव्हे २०२२	हाऊस क्र. ३८५, गाव लाहे, तालुका शहापूर, जिल्हा
(खाते क्र.) एलएनबीएसआर०२९१९-२००१०७६७६ व	रु. ६२००८४/ – व रु. १२१०५७/ –	ठाणे महाराष्ट्र. मोजमापित १५३० चौ.फु
एलएनबीएसआर११७२१-२२०१८२१९५	०७ नोव्हे २०२२	
ठिकाणः जयपूर दिनांक: ११.११.२०२२	प्र	धिकृत अधिकारी आवास फायनान्शियर्स लिमिटेड

# The spirit of Mumbai is now 94 years old!



www.freepressjournal.in



# SITI NETWORKS LIMITED

Regd. Office: Unit No. 38, 1st Floor, Madhu Industrial Estate, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400013 Tel.: +91 22 43605555 Email:- csandlegal@siti.esselgroup.com CIN:- L64200MH2006PLC160733 Website: www.sitinetworks.com



EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30,2022 (₹ / million														
	Consolidated Financial Results							Standalone Financial Results						
Particulars	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 30.09.2021	Half Year ended 30.09.2022	Half Year ended 30.09.2021	Financial Year ended 31.03.2022	Quarter ended 30.09.2022	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 30.09.2021	Half Year ended 30.09.2022	Half Year ended 30.09.2021	Financial Year ended 31.03.2022		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
Total Income from Operations	3,416.61	3,306.82	3,626.08	6,723.43	7,210.42	14,458.53	1,335.27	1,336.41	1,516.65	2,671.68	3,059.66	6,144.29		
Net Profit / (Loss) for the period														
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(664.47)	(775.16)	(599.17)	(1,439.63)	(1,150.64)	(2,504.00)	(649.72)	(641.18)	(535.27)	(1,290.90)	(1,100.16)	(2,315.19)		
Net Profit / (Loss) for the period before Tax														
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(664.47)	(775.16)	(616.39)	(1,439.63)	(1,167.86)	(2,589.90)	(649.72)	(641.18)	(592.49)	(1,290.90)	(1,157.38)	(2,553.15)		
Net Profit / (Loss) for the period after Tax														
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(681.55)	(773.13)	(634.87)	(1,454.69)	(1,202.32)	(2,609.71)	(649.72)	(641.18)	(592.49)	(1,290.90)	(1,157.38)	(2,553.15)		
Total Comprehensive Income for the period														
(Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax)														
and other Comprehensive Income (after Tax)	(680.75)	(772.33)	(635.65)	(1,453.09)	(1,203.88)	(2,604.19)	(649.49)	(640.95)	(593.73)	(1,290.45)	(1,159.86)	(2552.24)		
Paid Up Equity Share Capital (Face value of Re.1/- per share)	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05	872.05		
Earning Per Share (before Extraordinary Items)														
(of Rs.1/- each) Basic and Diluted (Rs) (not annualised)	(0.78)	(0.89)	(0.73)	(1.67)	(1.38)	(2.99)	(0.75)	(0.74)	(0.68)	(1.48)	(1.33)	(2.93)		
Earning Per Share (after Extraordinary Items)														
(of Rs.1/- each) Basic and Diluted (Rs) (not annualised)	(0.78)	(0.89)	(0.73)	(1.67)	(1.38)	(2.99)	(0.75)	(0.74)	(0.68)	(1.48)	(1.33)	(2.93)		

Place : Noida

Date: 10 November, 2022

- 1. The above standalone and consolidated financial results for the second quarter of financial year 2022-23 and half year ended on 30 September 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors in their respective meetings held on 10 November 2022. The statutory auditors have carried out limited review of these standalone and consolidated financial results for the second quarter of financial year 2022-23 and half year ended on 30 September 2022 and have expressed a modified review conclusion on these results.
- The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and as per the presentation requirements of SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 05 July 2016 and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the second quarter of financial year 2022-23 and half year ended on 30 September 2022 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for thesecond quarter of financial year 2022-23 and half year ended on 30 September 2022 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website www.sitinetworks.com
- For the quarter ended 30 June 2022, for quarter and six months ended 30 September 2022, for quarter and six months ended 30 September 2021 and for year ended 31 March 2022, the 'subscription income' included in the 'Revenue from Operations'in these financial results, inter alia, includes the amounts payable to the broadcasters' towards there share in relation to the pay channels subscribed by the customers. The aforementioned corresponding amounts (i.e. the broadcasters' share) has also been presented as an expense in these financial results. The said amounts are ₹ 790.96 million, ₹ 839.54 million, ₹ 1,630.50 million, ₹ 837.28 million, ₹ 1,694.48 million and ₹ 3,369.65 million for the quarter ended 30 June 2022, for quarter and six months ended 30 September 2022, for quarter and six months ended 30 September 2021 and for year ended 31 March 2022 respectively in the standalone financial results and ₹ 1,795.78 million, ₹ 1,860.97 million, ₹ 3,656.75 million, ₹ 1,902.03 million, ₹ 3,828.55 million and ₹ 7,529.25 million for the quarter ended 30 June 2022, for quarter and six months ended 30 September 2022, for quarter and six months ended 30 September 2021 and for year ended 31 March 2022 respectively in the consolidated financial results respectively. Had these expenses been disclosed on net basis, the 'Revenue from Operations' and the 'Pay channel costs' each would have been lower by ₹ 790.96 million, ₹ 839.54 million, ₹ 1,630.50 million, ₹ 837.28 million, ₹ 1,694.48 million and ₹ 3,369.65 million for the quarter ended 30 June 2022, for quarter and six months ended 30 September 2022, for quarter and six months ended 30 September 2021 and for year ended 31 March 2022 respectively in the standalone financial results, and ₹ 1,795.78 million, ₹ 3,656.75 million, ₹ 3,656.75 million, ₹ 3,828.55 million and ₹ 7,529.25 million for the quarter ended 30 June 2022, for quarter and six months ended 30 September 2021, for quarter and six months ended 30 September 2021 and for year ended 31 March 2022 respectively in the consolidated financial results respectively, though there would have been no impact on the net loss for the quarter and period then ended.

For Siti Networks Limited Sd/-Suresh Arora Whole Time Director

(DIN -00299232)

motherson 11

# समवर्धना मदरसन इंटरनॅशनल लिमिटेड

(पूर्वीची मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड) सीआयएन- एल३४३००एमएच१९८६पीएलसी२८४५१० नोंद. कार्यालय: युनिट क्र. ७०५, सी-विंग, वन बीकेसी, जी ब्लॉक, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र – ४०००५१, भारत दूर. क्र. ०२२-६१३५४८००, फॅक्स: ०२२-६१३५४८०१, ईमेल: investerrelations@motherson.com, वेबसाइट: www.motherson.com

# ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी संपलेली तिमाही आणि अर्ध वर्षाकरिता वित्तीय निष्कर्ष

एकत्रित ह. कोटीत								अलिप्त			लप्त			
स	पंपलेले तीन महि	ने	संपलेले	अर्ध वर्ष	संपलेले वर्ष			<b>.</b>	ांपलेले तीन महिन	ì	संपलेले	अर्ध वर्ष	संपलेले वर्ष	
३०.०९.२०२२ (अलेखापरीक्षित)	३०.०६.२०२२ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२१ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२९ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२१ (अलेखापरीक्षित)	३१.०३.२०२२ (लेखापरीक्षित)		तपशील	३०.०९.२०२२ (अलेखापरीक्षित)	३०.०६.२०२२ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२१ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२९ (अलेखापरीक्षित)	३०.०९.२०२१ (अलेखापरीक्षित)	३१.०३.२०२२ (लेखापरीक्षित)	
१८,२६०.७८	१७,६१४.७१	१४,०७६.३९	३५,८७५.४९	३०,२३३.७४	६३,५३५.९९	१	अखंडित कामकाजातून प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न	१,८१०.७४	१,६१८.२३	१,२७८.८९	३,४२८.९७	२,३९२.७६	५,३४४.७५	
५५७.९४	२७४.३०	१७८.६७	८३२.२४	७०१.५६	१,४७२.२२	7	अखंडित कामकाजातून कालावधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (कर आणि अपवादात्मक बाबीपूर्वी)	२७३.३२	१४५.१८	२७४.१०	४१८.५०	३९४.०५	९६७.९०	
-	-	१७८.४८	-	२८४.३४	४८४.५९		खंडित कामकाजातून कालावधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (कर आणि अपवादात्मक बाबीपूर्वी)	-	-	१७८.४८	-	२८४.३४	४८४.५९	
४५९.५६	२७४.३०	१७८.६७	७३३.८६	७०१.०७	१,४२४.१७	¥	अखंडित कामकाजातून कालावधीसाठी करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बार्बीनंतर)	२७३.३२	१४५.१८	२७४.१०	४१८.५	३९३.५६	९१९.८५	
-	-	१७८.४८	-	२८४.३४	४८४.५९		खंडित कामकाजातून कालावधीसाठी करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बार्बीनंतर)	-	-	१७८.४८	-	२८४.३४	४८४.५९	
२८८.१८	१८१.५५	२२६.५५	४६९.७३	६७३.०३	१,१८१.५७	8	अखंडित आणि खंडित कामकाजातून कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबींनंतर)	२१३.९१	१२०.००	୦୬.୭୭୪	३३३.९१	५५८.२४	१,१६३.८६	
२४६.४१ ४१.७७	१४१.२२ ४०.३३	२१६.८६ ९.६९	३८७.६३ ८२.१०	५०६.४९ १६६.५४	८७३.८५ ३०७.७२	ч	कालावधीसाठी करोत्तर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बार्बीनंतर) – मालकांचे – अ-नियंत्रक हितसंबंध	२१३.९१ -	१२०.०० -	३७७.७० -	३३३.९१ -	५५८.२४ -	१,१६३.८६ -	
(३१०.९०) ४१.०१	६७२.४३ ४०.१६	(०.६२) (३२.८६)	३६१.५७ ८१.१७	५६४.४२ २१६.८६	९०८.८१ ४९२.३९	щ	कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीसाठी नफा/(तोटा) (करोत्तर) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करोत्तर) धरून) – मालकांचे – अ-नियंत्रक हितसंबंध	२१९.३८ -	१५४. <b>९</b> ५ -	३८३.१८ -	३७४.३३ -	५८०.९१ -	१,१९०.०६ -	
४५१.७६	४५१.७६	३१५.७९	४५१.७६	३१५.७९	४५१.७६	૭	भरणा झालेले समभाग भांडवल (प्रत्येकी भा.रु. १/- चे)	४५१.७६	४५१.७६	३१५.७९	४५१.७६	३१५.७९	४५१.७६	
२०,२४७.७९	२०,७५३.२७	१२,३४२.५८	२०,२४७.७९	१२,३४२.५८	२०,१३६.४७	L	राखीव (पुनर्मूल्यांकित राखीव वगळन्)	३०,५५९.९१	३०,६३४.१७	५,७०४.५९	३०,५५९.९१	५,७०४.५९	३०,४७९.२७	
२६,६७७.४०	२७,१२२.६६	२,६३०.६६	२६,६७७.४०	२,६३०.६६	२६,६७७.४०	9	सिक्युरिटीज प्रिमियम अकाऊंट	२६,६६९.३८	२६,६६९.३८	२,६२२.६४	२६,६६९.३८	२,६२२.६४	२६,६६९.३८	
१९,८७८.०७	१९,८२९.९९	१०,८४२.४५	१९,८७८.०७	१०,८४२.४५	१९,७३६.५३	१०	नेट वर्थ	३०,४२२.७४	३०,५०२.१६	५,८२५.७६	३०,४२२.७४	५,८२५.७६	३०,३७६.७८	
१४,०९७.८३	१३,८७६.६५	१२,२१८.८३	१४,०९७.८३	१२,२१८.८३	१४,१२९.७२	११	भरणा झालेले कर्ज भांडवल/थकीत कर्ज	५,५२०.४४	५,३४२.०८	५,१४३.९५	५,५२०.४४	५,१४३.९५	५,४१६.३०	
०.६८	०.६५	१.०३	०.६८	१.०३	०.६९	१२	डेब्ट इक्विटी रेशो	०.१८	0.89	0.64	०.१८	०.८५	०.१८	
०.३६	0.78	0.89	૦.५७	०.६२	0.90	१३	प्रति समभाग प्राप्ती (प्रत्येकी भा.रु. १/- चे) अखंडित कामकाजासाठी- मूलभूत व सौम्यिकृत	0.38	০.१८	०.५३	0.89	०.७३	१.५३	
-	-	٥.२८	-	0.84	0.60		प्रति समभाग प्राप्ती (प्रत्येकी भा.रु. १/- चे) खंडित कामकाजासाठी-मूलभूत व सौम्यिकृत	_	-	٥.२८	_	०.४५	0.00	
-	-	-	-	-	-	१४	कॅपिटल रिडम्पशन राखीव	-	-	-	-	-	-	
		सूचिबद्ध कंपनी	ला लागू नाही			१५	डिबेंचर रिडम्प्शन राखीव			सूचिबद्ध कंपनी	ता लागू नाही			
0.32	۶۵.٥	०.६२	०.५७	१.३७	३.१७	१६	डेब्ट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो	०.०५	0.88	0.09	0.09	0.70	0.90	
१४.०३	१२.४३	१५.१९	१३.२८	१७.१९	१४.९८	१७	इंटरेस्ट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो	४.३५	3.93	٧.८२	४.१४	६.०९	५.०१	

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या विनियम ३३ आणि ५२ अन्वये शेअर बाजारात दाखल केलेल्या तिमाही वित्तीय निष्कर्षाचे तपशिलवार विवरणाचा वरील एक उतारा आहेत. तिमाही वित्तीय निकालाचे संपूर्ण विवरण शेअर बाजाराच्या संकेतस्थळावर (www.nseindia.com आणि www.bseindia.com) आणि कंपनीच्या (www.motherson.com) उपलब्ध आहेत.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे समवर्धना मदरसन इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता (पूर्वीची मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड) -सही-व्ही. सी. सेहगल

ठिकाणः नॉयडा दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२२ अध्यक्ष

Proud to be part of samvardhana motherson